

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7—फरवरी 13, 2015 (माघ 18, 1936)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7—FEBRUARY 13, 2015 (MAGHA 18, 1936)

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

---

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

---

गृह मंत्रालय

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद— 500052, दिनांक 20 जनवरी 2015

सं. 15011/20/2014—स्था.—गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 23011/87/2014 — पीटी दिनांक 18.11.2014 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्री रविन्द्र एम. एल., कमांडेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक निदेशक (रणकौशल) के पद पर पे—बैंड—4 रुपए 37,400—67,000/— + ग्रेड पे रुपए 8700/— पर दिनांक 12 जनवरी 2015 (पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के आधार पर एक वर्ष या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो, नियुक्त किया जाता है। अधिकारी को उक्त पद के भारत सरकार के नियमों के तहत वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने का हक होगा।

2. उन्हें यह विकल्प दिया जाता है कि वे अपने पैतृक वेतनमान या अकादमी में प्रतिनियुक्ति के पद पर वेतनमान यथा पे—बैंड —4, रुपए 37,400—67,000/— + ग्रेड पे रुपए 8700/— संबद्ध नियमों के अधीन लागू होने वाले अन्य भत्तों के सहित ले सकते हैं। इस विकल्प का सुनिश्चयन नियुक्ति के एक महीने के भीतर कर देना चाहिए और एक बार सुनिश्चित होने पर यह अंतिम एवं बाध्य होगा।

अरुणा बहुगुणा  
निदेशक

दिनांक 22 जनवरी 2015

सं. -15011/18/2014-स्था.—गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. I-21017/14/2014-IPS.III, दिनांक 23.12.2014 की संस्तुति के आधार पर श्री उमेश शर्मा, भा.पु.से (आंध्रप्रदेश:1989) को स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पे बैंड-4, रु. 37,400-67,000/- ग्रेड पे 10,000/- में संयुक्त निदेशक के पद पर दिनांक 19.01.2015 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के आधार पर पाँच वर्ष की अवधि या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले लागू होगा, नियुक्त किया जाता है।

अरुणा बहुगुणा  
निदेशक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1, उ. प्र.

इलाहाबाद, दिनांक 16 जनवरी 2015

सं. प्रशा.-II/ग्रेड. I/7-18/बाल्यूम-III/19783—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने निम्नलिखित अनुभाग-अधिकारी वर्ग परीक्षा (सिविल-लेखा) भाग दो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी/नियमित (समूह -ख राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया है।

| क्रमांक | व्यक्तिगत संख्या<br>बी/ | नाम<br>सर्वश्री  | कार्यभार ग्रहण करने<br>की तिथि |
|---------|-------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1       | 2398                    | कृष्ण कुमार निगम | 26.08.2014                     |
| 2       | 1479                    | विनय शंकर वर्मा  | 10.10.2014                     |
| 3       | 0586                    | सुशान्त दत्ता    | 18.12.2014(अपरान्ह)            |

अरविन्द श्रीवास्तव  
उप महालेखाकार/प्रशासन

वस्त्र मंत्रालय

हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2015

सं. ए-11025/8/2013-डीसीएचएल/स्था-II---राष्ट्रपति, श्री सुरेन्द्र कुमार को भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, बारगढ़ (उड़ीसा) में दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिये 15600--39100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 7600/- रुपये के वेतनमान में निदेशक (संस्थान) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं ए-11025/8/2013-डीसीएचएल/स्था-II---राष्ट्रपति, श्री मुख्तार अहमद को भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, शांतिपुर (पश्चिम बंगाल) में दिनांक 2 जनवरी, 2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए 15,600—39,100/- रु. (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 7,600 रु. के वेतनमान में निदेशक (संस्थान) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 5 जनवरी 2015

सं ए-23023/6/2014-डीसीएचएल/स्था-II---राष्ट्रपति, श्री टी. के. दास को बुनकर सेवा केन्द्र अगरतला में दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए 15,600—39,100/- रु. (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5,400/- रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-1(डिजाइन) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं ए-23023/2/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री वूटला हिमजा कुमार को बुनकर सेवा केन्द्र हैदराबाद में दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए 15,600—39,100/— रु. (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5,400/— रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-1(प्रसंस्करण) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं ए-23023/2/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री सरबेस्वर दास को 26 दिसम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से बुनकर सेवा केन्द्र, गुवाहाटी में अगले आदेशों तक 15,600—39,100/— रु. (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5,400/— रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-1(प्रसंस्करण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं ए-23023/2/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री एच. देबनाथ को 2 जनवरी, 2015 (पूर्वाह्न) से बुनकर सेवा केन्द्र, अगरतला में अगले आदेशों तक 15,600—39,100/— रु. (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5,400/— रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-1(प्रसंस्करण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं ए-23023/2/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री सुभाष चन्दर महाजन को बुनकर सेवा केन्द्र, जयपुर में दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए 15,600—39,100/— रु. (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5,400/— रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-1 (प्रसंस्करण) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं ए-23023/2/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री पी. थिरुवेंकटम को बुनकर सेवा केन्द्र, सेलम में दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए 15,600—39,100/— रु. (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5,400/— रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-1(प्रसंस्करण) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं ए-23023/2/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री वी. महालिंगम को बुनकर सेवा केन्द्र, बेंगलूरु में दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए 15,600—39,100/— रु. (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5,400/— रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-1(प्रसंस्करण) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 15 जनवरी 2015

सं ए-23023/3/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री डी. जी. कुम्भारे को बुनकर सेवा केन्द्र, नागपुर में दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए 15,600—39,100/— रु. (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5,400 रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-1(बुनाई) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं ए-23023/3/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री ओ.पी. मिश्रा को भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी में दिनांक 15 जनवरी, 2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए 15,600—39,100/— रु. (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5,400/— रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-1(बुनाई) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

-----

सं ए-23023/3/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री आर.एस. गोखले को बुनकर सेवा केन्द्र, मुंबई में दिनांक 1 जनवरी, 2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए 15,600—39,100/— रु. (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5,400/— रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-1(बुनाई) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

#### भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 5 जनवरी 2015

सं. पीडी/7(18)/2014/भर्ती-IV/(एसओ/जी)/152—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड 'एफ' पे बैंड पीबी-4 रुपये 37,400—67,000/— + ग्रेड पे रुपये 8,700/— को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'जी' के पद पर पे बैंड पीबी-4 रुपये 37,400—67,000/— + ग्रेड पे 8,900/— के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में 01 जुलाई 2014 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम                |
|-------------|-------------------------------|
| 1.          | श्रीमती कल्पना गोवर्धन        |
| 2.          | श्री सैयद महबूब बारा          |
| 3.          | डा अनिरुद्ध कुमार             |
| 4.          | डा(मिस) नयना राजे हिमांशु     |
| 5.          | डा प्रतापकिशोर शर्मा          |
| 6.          | श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव  |
| 7.          | श्री सान्तनु दास              |
| 8.          | श्री मुकेश कुमार              |
| 9.          | श्री भूषण मनोहरराव बारापात्रे |
| 10.         | डा कुलदीप कुमार यादव          |
| 11.         | डा सुबिर भट्टाचार्या          |
| 12.         | डा बीरीजा शंकर पात्रो         |
| 13.         | श्री राजदीप                   |
| 14.         | श्री राम उदय यादव             |
| 15.         | श्री अरूण दत्ता               |
| 16.         | श्री प्रदीप कुमार बिश्वास     |

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 17. | श्री विनय कुमार मिश्रा               |
| 18. | श्री श्रीराम हरिनारायण राव           |
| 19. | श्री रोहिताश्व शर्मा                 |
| 20. | श्री दांडेकर नितीन कमलाकर            |
| 21. | श्रीमती एक्कोट्टिल्लत लसिता          |
| 22. | श्रीमती रूना बंद्योपाध्याय           |
| 23. | श्री ठाकरे जितेंद्र देविदासराव       |
| 24. | डा असीम कुमार घोष                    |
| 25. | श्री मधुसूदन मजुमदार                 |
| 26. | श्री मंगम चन्द्रशेखर                 |
| 27. | डा व्योम सक्सेना                     |
| 28. | श्री चंदन दे                         |
| 29. | श्री नरेन्द्र कुमार सिंह             |
| 30. | श्री कुलकर्णी चारुदत्त प्रल्हाद      |
| 31. | श्रीमती सुजो सि आय                   |
| 32. | श्री जयंत कुमार बोस                  |
| 33. | श्री विपुल सेन                       |
| 34. | श्री सी उमा शंकर                     |
| 35. | श्री अशोक कुमार                      |
| 36. | डा जयंत वसंत देहाडराय                |
| 37. | डा(श्रीमती) जयश्री विष्णुदास कामत    |
| 38. | डा राजेश वी पै                       |
| 39. | श्री के कुमारगुरु                    |
| 40. | श्री रमेश गंगाराम औटी                |
| 41. | श्री रंजन कुमार                      |
| 42. | श्री परितोष मोदक                     |
| 43. | डा(श्रीमती) वंदना अनिल कुमार पुलहानी |
| 44. | श्री गणेश गुरूनाथन                   |
| 45. | श्रीमती पेम्मारजू पद्मा सावित्री     |
| 46. | श्री सन्दिपन नायक                    |
| 47. | श्री भारत मोहन कुकरेती               |
| 48. | डा(श्रीमती) मैथिली कामेश्वरन         |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 49. | श्री सुमन शर्मा               |
| 50. | डा उदय कुमार सिन्हा           |
| 51. | श्री रामन रमेश                |
| 52. | श्री एस वेंकटाचलपती           |
| 53. | श्री सुरेश प्रसाद सिंह        |
| 54. | श्री राधेलाल भारद्वाज         |
| 55. | श्री श्रीधर गोविन्दन          |
| 56. | डा श्रीकुमार घोड़ई            |
| 57. | श्री विनोद सिंह रावत          |
| 58. | श्री रवि कुमार गेदाड          |
| 59. | डा आनंद दामोदर बल्लाल         |
| 60. | श्री सुहास हणमंत मंगोली       |
| 61. | डा(श्रीमती) अनुराधा चक्रवर्ती |
| 62. | डा(श्रीमती) गरिमा शर्मा       |
| 63. | श्री जि वि एस जि आचार्यलु     |
| 64. | श्री रमापति विन्द             |
| 65. | डा रेनजु जॉर्ज थॉमस           |
| 66. | श्री रमन कुमार                |
| 67. | श्री श्रीनिवास कनागाला        |
| 68. | डा(श्रीमती) एफ लिल्ली         |
| 69. | श्री राम बचन                  |
| 70. | श्री सवित्र राज वशिष्ठ        |
| 71. | डा सी जनार्दनन                |
| 72. | डा(श्रीमती) भवानी एस शंकर     |
| 73. | डा जी जयकृष्ण                 |
| 74. | श्री अनुप सूर्यवंशी           |
| 75. | श्रीमती गीता अनड्रीव          |
| 76. | श्रीमती रत्ना भाम्ना          |
| 77. | डा शिमजीत एस आर               |
| 78. | श्री अनंता बरगोहांड           |
| 79. | डा नवीन कुमार                 |
| 80. | डा ध्रुव कुमार सिंह           |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 81.  | श्री भारत भूषण श्रीवास्तव            |
| 82.  | डा रामेश्वर किसन भगत                 |
| 83.  | डा सुनील दत्त शर्मा                  |
| 84.  | डा थावीथू नाडार पलानी सेल्वम         |
| 85.  | डा(श्रीमती) ज्योतिर्मयी मोहान्ती     |
| 86.  | डा माधव चन्द्र रथ                    |
| 87.  | डा रवि जोशी                          |
| 88.  | श्री अभय कुमार                       |
| 89.  | श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी             |
| 90.  | श्री कौशिक मित्र                     |
| 91.  | श्री मिश्री लाल यादवा                |
| 92.  | श्री मन मोहन पाण्डेय                 |
| 93.  | डा अनुराग गुप्ता                     |
| 94.  | श्री कौस्तुभ गाडगीळ                  |
| 95.  | श्री पराग अरूण पुणेकर                |
| 96.  | श्री विश्वनाथ प्रसाद                 |
| 97.  | श्री अभिषेक श्रीवास्तव               |
| 98.  | श्री पोलंराजु वेंकट दुर्गाप्रसाद     |
| 99.  | डा अनीलकुमार सीवन पिल्लै             |
| 100. | डा(कुमारी) प्रमिला दामोदर सावंत      |
| 101. | श्री जीतपाल सिंह                     |
| 102. | श्री सोमेश राय                       |
| 103. | श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया          |
| 104. | डा(श्रीमती) संगीता चंद्रशेखर देवकाते |
| 105. | श्री आशुतोष आचार्य                   |
| 106. | श्रीमती उमादेवी कृष्णन उणिट्तान      |
| 107. | डा अनिल कृष्णा देबनाथ                |
| 108. | डा अनिल कुमार चौहान                  |
| 109. | डा जगन्नाथ                           |
| 110. | श्री मिलींद मनोहरराव गुल्हाने        |
| 111. | श्री ज्ञानेन्द्र सिंह                |
| 112. | श्री शुभेन्दु चट्टोपाध्याय           |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 113. | श्री वासुदेवन कक्काट शन्करन |
| 114. | श्री आनंद गंगाधरन           |
| 115. | श्री बेन्नी जोर्ज           |

एम. व्ही. श्रीधरन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400703, दिनांक 15 जनवरी 2015

सं. ब्रिट/9/18/014—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड में श्री वरुण दामोदरन नायर को दिनांक 01 अगस्त 2014 के पूर्वाह्न से रु. 15,600—39,100/— के वेतन बैंड तथा रु. 5,400/— के ग्रेड वेतन सहित वैज्ञानिक अधिकारी 'सी' के पद पर, अगले आदेशों तक, अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

पी. रामकृष्णन्  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. ब्रिट/9/18/015—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड में श्री सुदीप सुनील भुनिया को दिनांक 01 अगस्त 2014 के पूर्वाह्न से रु. 15,600—39,100/— के वेतन बैंड तथा रु. 5,400/— के ग्रेड वेतन सहित वैज्ञानिक अधिकारी 'सी' के पद पर, अगले आदेशों तक, अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

पी. रामकृष्णन्  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. ब्रिट/9/18/016—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड में कुमारी आरती गुप्ता को दिनांक 01 अगस्त 2014 के पूर्वाह्न से रु. 15,600—39,100/— के वेतन बैंड तथा रु. 5,400/— के ग्रेड वेतन सहित वैज्ञानिक अधिकारी 'सी' के पद पर, अगले आदेशों तक, अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

पी. रामकृष्णन्  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 19 जनवरी 2015

संख्या:/क.र./प0.बं0./एफटीई/560/2014--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियों विघटित हो गई हैं।

| क्र०<br>स० | सी.आई.एन              | कम्पनी का नाम                             |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1          | U51109WB2006PTC111274 | ब्लोस्सम आर्ट एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड  |
| 2          | U29253WB2011PTC162190 | खेतरी इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 3          | U10100WB2011PTC171079 | एसएसएम मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड   |
| 4          | U27100WB2007PTC117211 | विकसून स्टील कंपनी प्राइवेट लिमिटेड       |
| 5          | U51909WB2011PTC158247 | आर एल मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड        |

| क्र०<br>स० | सी.आई.एन              | कम्पनी का नाम                                            |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 6          | U72900WB2009PTC132898 | आनंद शिक्षण संस्थान एंड कम्प्युटर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड |
| 7          | U70109WB2008PTC128299 | निकोलो डेव्लपर्स प्राइवेट लिमिटेड                        |
| 8          | U22219WB2002PTC095168 | स्वप्ना प्रेस ग्रीन पेजेस प्राइवेट लिमिटेड               |
| 9          | U17200WB2011PLC170894 | इंडसग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड                             |
| 10         | U74999WB2012PTC182661 | मिदास एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड                       |
| 11         | U52100WB2013PTC191998 | मिनोर्मर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड                       |
| 12         | U55109WB2011PTC162924 | एक्वासन हॉलिडेज (कोलकाता) प्राइवेट लिमिटेड               |
| 13         | U31402WB2006PTC110246 | सार्क बैटरी प्राइवेट लिमिटेड                             |
| 14         | U51109WB2005PTC105723 | नवरंग व्यापार प्राइवेट लिमिटेड                           |
| 15         | U51219WB1986PTC039989 | बिनोद फ़ाईनंसर्स एंड कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड         |
| 16         | U74994WB2011PTC162073 | अनिकेत प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड                         |
| 17         | U51909WB2009PTC131828 | अपना उत्सव कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड                     |
| 18         | U74900WB2013PTC196138 | नेक्सटेल सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड                      |
| 19         | U51101WB2013PTC196130 | माइंडस्केल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड                     |
| 20         | U74900WB2013PTC196074 | ब्लेसर्स टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड                      |
| 21         | U51109WB2005PTC105679 | पेंगुईन मर्चेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड                      |
| 22         | U45400WB2013PTC190672 | रेवती इन्फ्राकोण प्राइवेट लिमिटेड                        |
| 23         | U11202WB2012PTC175762 | फिशोर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड                      |
| 24         | U93000WB2013PTC199083 | रेवती मल्टी-सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड                    |
| 25         | U70109WB2011PTC164244 | देबांगन डेव्लपर्स प्राइवेट लिमिटेड                       |
| 26         | U70109WB2012PTC184865 | रामजानकी इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड                       |
| 27         | U74900WB2013PTC189684 | एस्सार इन्शुरेंस एड्वाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड     |
| 28         | U72200WB2011PTC167179 | क्लारस सोल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड                    |
| 29         | U27320WB1968PTC027320 | पानागढ़ इंजी. वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड                    |
| 30         | U31402WB1980PTC033107 | ईस्टर्न पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड                       |
| 31         | U74900WB2013PTC196740 | फूनिन एक्टिविटी सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड                 |
| 32         | U74900WB2011PTC158240 | गोल्डेन चाहिदा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड               |

दीप नारायण चौधुरी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार पश्चिम बंगाल

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 28th January 2015

No. 22/Cal/2014/SCA(Genl.)—In pursuance of sub-rule (3) of Rule 4 of Order II of the Supreme Court Rules, 2013, the Hon'ble Chief Justice of India has directed that the Supreme Court Registry shall remain closed on Saturday, the 7th February, 2015 on account of Election to the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

RAJ PAL ARORA  
REGISTRAR (ADMN. GENL.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad – 500 052, the 20th January 2015

No. 15011/20/2014-Estt.—In pursuance of approval of Ministry of Home Affairs conveyed vide their letter No.23011/87/2014-PT dated 18.11.2014, Shri Ravindra M.L., Commandant, CRPF is appointed as Assistant Director (Tactics) in SVP National Police Academy, Hyderabad, in the pay scale of PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- on deputation basis for a period of one year with effect from 12th January, 2015 (FN) or until further orders, whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation. Officer will be entitled to the pay and allowances of the said post, as per GOI instructions issued from time to time.

2. Officer will have the option either to draw the pay in his parent scale of pay or the pay in the scale of pay of the deputation post in the Academy i.e. PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- plus allowances as admissible under the relevant GOI rules. The option has to be exercised by the officer, within one month of his joining the post and option once exercised shall be final and binding.

ARUNA BAHUGUNA  
Director

The 22nd January 2015

No. 15011/18/2014-Estt.—In pursuance of MHA O.M. No.I-21017/14/2014-IPS.III Dated 23.12.2014, Shri Umesh Sharraf, IPS (AP:1989), is appointed as Joint Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad in the pay scale of Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 19th January, 2015, for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier, on usual terms and conditions of deputation.

ARUNA BAHUGUNA  
Director

## INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

## OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&amp;E)-1, U.P.

Allahabad, the 16th January 2015

No. Admn.II/Gr.I/7-18/Vol.-III/19783— The Accountant General (A&E)-I, Uttar Pradesh, Allahabad has appointed the following Section Officer Grade Examination (Civil Accounts) Part-II passed candidates as Assistant Accounts Officer / Regular ( Group-‘B’ Gazetted ) in this office :—

| Sl . No. | Personal No.<br>B/ | Name<br>S/Shri      | Date of Joining |
|----------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1        | 2398               | Krishna Kumar Nigam | 26.08.2014      |
| 2        | 1479               | Vinay Shankar Verma | 10.10.2014      |
| 3        | 0586               | Sushant Dutta       | 18.12.2014(AN)  |

ARVIND SRIVASTAVA  
Dy. Accountant General/Admn

MINISTRY OF TEXTILES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS

New Delhi, the 2nd January 2015

No. A-11025/8/2013-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri Surendra Kumar as Director (Institute) in the Pay-Scale of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 7,600/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Bargarh (Orissa) w.e.f. the forenoon of 26th December 2014 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (HL)

No. A-11025/8/2013-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri Mukhtar Ahmad as Director (Institute) in the Pay-Scale of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 7,600/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Shantipur (West Bengal) w.e.f. the forenoon of 2nd January 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (HL)

The 5th January 2015

No. A-23023/6/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri T.K.Das as Assistant Director Gr.I (Designs) in the Pay-Scale of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- in the Weavers' Service Centre, Agartala w.e.f. the forenoon of 26th December 2014 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (HL)

No. A-23023/2/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri Vootla Himaja Kumar as Assistant Director Gr.I (Processing) in the Pay-Scale of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- in the Weavers' Service Centre, Hyderabad w.e.f. the forenoon of 26th December 2014 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (HL)

No. A-23023/2/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri Sarbeswar Das as Assistant Director Gr.I (Processing) in the Pay-Scale of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- in the Weavers' Service Centre, Guwahati w.e.f. the forenoon of 26th December 2014 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (HL)

No. A-23023/2/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri H. Debnath as Assistant Director Gr.I (Processing) in the Pay-Scale of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- in the Weavers' Service Centre, Agartala w.e.f. the forenoon of 2nd January 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (HL)

No. A-23023/2/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri Subhash Chander Mahajan as Assistant Director Gr.I (Processing) in the Pay-Scale of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- in the Weavers' Service Centre, Jaipur w.e.f. the forenoon of 29th December 2014 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (HL)

No. A-23023/2/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri P. Thiruvengatam as Assistant Director Gr.I (Processing) in the Pay-Scale of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- in the Weavers' Service Centre, Salem w.e.f. the forenoon of 26th December 2014 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (HL)

No. A-23023/2/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri V. Mahalingam as Assistant Director Gr.I (Processing) in the Pay-Scale of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- in the Weavers' Service Centre, Bangalore w.e.f. the forenoon of 26th December 2014 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (HL)

The 15th January 2015

No. A-23023/3/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri D. G. Kumbhare as Assistant Director Gr.I (Weaving) in the Pay-Scale of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- in the Weavers' Service Centre, Nagpur w.e.f. the forenoon of 29th December 2014 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

No.A-23023/3/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri O.P. Mishra as Assistant Director Gr.I (Weaving) in the Pay-Scale of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- in the Indian Institutes of Handloom Technology, Varanasi w.e.f. the forenoon of 15th January 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

No.A-23023/3/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri R.S. Gokhale as Assistant Director Gr.I (Weaving) in the Pay-Scale of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- in the Indian Institutes of Handloom Technology, Varanasi w.e.f. the forenoon of 1st January 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

#### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 5th January 2015

No. PD/7(18)/2014-R-IV/(SO/G)/152—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'F' in PB-4, ₹ 37,400—67,000/- + Grade Pay ₹ 8,700/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'G' in PB-4, ₹ 37,400—67,000/- + Grade Pay ₹ 8,900/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2014 in an officiating capacity, until further orders :—

| Sl. No | Name of the officer               |
|--------|-----------------------------------|
| 1      | Smt. KALPANA GOVERDHAN            |
| 2      | Shri SYED MAHABOOB BASHA          |
| 3      | Dr. ANIRUDDHA KUMAR               |
| 4      | Dr.(Ms.) NAINA RAJE HIMANSHU      |
| 5      | Dr. PRATAPKISHORE SHARMA          |
| 6      | Shri S.K. SRIVASTAVA              |
| 7      | Shri SANTANU DAS                  |
| 8      | Shri MUKESH KUMAR                 |
| 9      | Shri BARAPATRE BHUSHAN MANOHARRAO |
| 10     | Dr. KULDEEP KUMAR YADAV           |
| 11     | Dr. SUBIR BHATTACHARYYA           |
| 12     | Dr. BIRIJA SANKAR PATRO           |

| Sl. No | Name of the officer                 |
|--------|-------------------------------------|
| 13     | Shri RAJDEEP                        |
| 14     | Shri RAM UADAY YADAV                |
| 15     | Shri ARUN DUTTA                     |
| 16     | Shri PRADIP KUMAR BISWAS            |
| 17     | Shri VINAY KUMAR MISHRA             |
| 18     | Shri SREERAM HARINARAYANA RAO       |
| 19     | Shri ROHITASHVA SHARMA              |
| 20     | Shri DANDEKAR NITIN KAMLAKAR        |
| 21     | Smt. AKKOTTILLATH LASITHA           |
| 22     | Smt. RUNA BANDYOPADHYAY             |
| 23     | Shri THAKARE JITENDRA DEVIDASRAO    |
| 24     | Dr. ASIM KUMAR GHOSH                |
| 25     | Shri MADHUSUDAN MAJUMDAR            |
| 26     | Shri MANGAM CHANDRA SEKHAR          |
| 27     | Dr. VYOM SAXENA                     |
| 28     | Shri CHANDAN DEY                    |
| 29     | Shri NARENDRA KUMAR SINGH           |
| 30     | Shri KULKARNI CHARUDATTA PRALHAD    |
| 31     | Smt. SUJO C.I.                      |
| 32     | Shri JAYANTA KUMAR BOSE             |
| 33     | Shri VIPUL SEN                      |
| 34     | Shri C. UMA SHANKAR                 |
| 35     | Shri ASHOK KUMAR                    |
| 36     | Dr. JAYANT VASANT DEHADRAI          |
| 37     | Dr.(Smt) JAYSHREE VISHNUDAS KAMAT   |
| 38     | Dr. RAJESH V. PAI                   |
| 39     | Shri K. KUMARAGURU                  |
| 40     | Shri RAMESH GANGARAM AUTI           |
| 41     | Shri RANJAN KUMAR                   |
| 42     | Shri PARITOSH MODAK                 |
| 43     | Dr.(Smt) VANDANA ANIL KUMAR PULHANI |
| 44     | Shri GANESH GURUNATHAN              |
| 45     | Smt. PEMMARAJU PADMA SAVITRI        |
| 46     | Shri SANDIPAN NAYAK                 |
| 47     | Shri BHARAT MOHAN KUKRETI           |
| 48     | Dr(Smt) MYTHILI KAMESWARAN          |

| Sl. No | Name of the officer               |
|--------|-----------------------------------|
| 49     | Shri SUMAN SHARMA                 |
| 50     | Dr. UDAY KUMAR SINHA              |
| 51     | Shri RAMAN RAMESH                 |
| 52     | Shri S. VENKATACHALAPATHY         |
| 53     | Shri SURESH PRASAD SINGH          |
| 54     | Shri RADHE LAL BHARDWAJ           |
| 55     | Shri SRIDHAR GOVINDAN             |
| 56     | Dr. SRIKUMAR GHORUI               |
| 57     | Shri VINOD SINGH RAWAT            |
| 58     | Shri RAVI KUMAR GEDDADA           |
| 59     | Dr. ANAND DAMODAR BALLAL          |
| 60     | Shri SUHAS HANMANT MANGOLI        |
| 61     | Dr.(Smt.) ANURADHA CHAKRABARTI    |
| 62     | Dr.(Smt.) GARIMA SHARMA           |
| 63     | Shri G.V.S.G. ACHARYULU           |
| 64     | Shri RAMA PATI VIND               |
| 65     | Dr. RENJU GEORGE THOMAS           |
| 66     | Shri RAMAN KUMAR                  |
| 67     | Shri SRINIVAS KANAGALA            |
| 68     | Dr.(Smt.) F. LILLY                |
| 69     | Shri RAM BACHAN                   |
| 70     | Shri SWITRA RAJ VASHISHTHA        |
| 71     | Dr. C. JANARDANAN                 |
| 72     | Dr.(Smt.) BHAVANI S. SHANKAR      |
| 73     | Dr. G. JAIKRISHAN                 |
| 74     | Shri ANUP SURYAWANSHI             |
| 75     | Smt. GEETHA ANDREW                |
| 76     | Smt. RATNA BHAMRA                 |
| 77     | Dr. SHIMJITH S.R.                 |
| 78     | Shri ANANTA BORGOHAIN             |
| 79     | Dr. NAVEEN KUMAR                  |
| 80     | Dr. DHRUVA KUMAR SINGH            |
| 81     | Shri BHARAT BHUSHAN SHRIWASTWA    |
| 82     | Dr. RAMESHWAR KISAN BHAGAT        |
| 83     | Dr. SUNIL DUTT SHARMA             |
| 84     | Dr. THAVEETHU NADAR PALANI SELVAM |

| Sl. No | Name of the officer                         |
|--------|---------------------------------------------|
| 85     | Dr.(Smt.) JYOTIRMAYEE MOHANTY               |
| 86     | Dr. MADHAB CHANDRA RATH                     |
| 87     | Dr. RAVI JOSHI                              |
| 88     | Shri ABHAY KUMAR                            |
| 89     | Shri BRAJA KISHORE TRIPATHY                 |
| 90     | Shri KAUSHIK MITRA                          |
| 91     | Shri MISHRI LAL YADAVA                      |
| 92     | Shri MAN MOHAN PANDEY                       |
| 93     | Dr. ANURAG GUPTA                            |
| 94     | Shri KAUSTUBH GADGIL                        |
| 95     | Shri PARAG ARUN PUNEKAR                     |
| 96     | Shri VISHWANATH PRASAD                      |
| 97     | Shri ABHISHEK SRIVASTAVA                    |
| 98     | Shri POLAMRAJU VENKATA DURGAPRASAD          |
| 99     | Dr. ANILKUMAR SIVAN PILLAI                  |
| 100    | Dr.(Kum.) PRAMILA DAMODAR SAWANT            |
| 101    | Shri JIT PAL SINGH                          |
| 102    | Shri SOMESH RAI                             |
| 103    | Shri YOGENDRA SINGH BHADAURIA               |
| 104    | Dr.(Smt.) SANGEETA CHANDRASHEKHAR DEOKATTEY |
| 105    | Shri ASUTOSH ACHARYA                        |
| 106    | Smt. UMADEVI KRISHNAN UNNITHAN              |
| 107    | Dr. ANIL KRISHNA DEBNATH                    |
| 108    | Dr. ANIL KUMAR CHAUHAN                      |
| 109    | Dr. JAGANNATH                               |
| 110    | Shri MILIND MANOHARRAO GULHANE              |
| 111    | Shri GYANENDRA SINGH                        |
| 112    | Shri SUBHENDU CHATTOPADHYAY                 |
| 113    | Shri VASUDEVAN KAKKAT SANKARAN              |
| 114    | Shri ANAND GANGADHARAN                      |
| 115    | Shri BENNY GEORGE                           |

M.V. SREEDHARAN  
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
(BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY)

Navi Mumbai-400703, the 15th January 2015

No. BRIT/9/18/014—The President is pleased to appoint Shri Varun Damodaran Nair as Scientific Officer Grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/- in the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of August 01, 2014 until further orders.

P. RAMAKRISHNAN  
Chief Admn. Officer

No. BRIT/9/18/015—The President is pleased to appoint Shri Sudip Sunil Bhunia as Scientific Officer Grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/- in the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of August 01, 2014 until further orders.

P. RAMAKRISHNAN  
Chief Admn. Officer

No. BRIT/9/18/016—The President is pleased to appoint Kum. Arti Gupta as Scientific Officer Grade 'C' in the pay band of Rs. 15600-39100 with grade pay Rs. 5400 in the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of August 01, 2014 until further orders.

P. RAMAKRISHNAN  
Chief Admn. Officer

---

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Office of the Registrar of Companies

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

KOLKATA, the 19th January 2015

No.ROC/WB/FTE/560/2014—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 32 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved: —

| Sl. No. | CIN                   | Name of the Company                                       |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1       | U51109WB2006PTC111274 | BLOSSOM ART & CO. PRIVATE LIMITED                         |
| 2       | U29253WB2011PTC162190 | KHETRI ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED                  |
| 3       | U10100WB2011PTC171079 | SSM MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED                     |
| 4       | U27100WB2007PTC117211 | VIKSUN STEEL CO PRIVATE LIMITED                           |
| 5       | U51909WB2011PTC158247 | R L MULTI TRADE PRIVATE LIMITED                           |
| 6       | U72900WB2009PTC132898 | ANAND SHIKSHAN SANSTHAN & COMPUTER CENTER PRIVATE LIMITED |
| 7       | U70109WB2008PTC128299 | NICOLO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED                         |
| 8       | U22219WB2002PTC095168 | SWAPNA PRESS GREEN PAGES PRIVATE LIMITED                  |
| 9       | U17200WB2011PLC170894 | INDUSGLOBAL TEXTILE LIMITED                               |
| 10      | U74999WB2012PTC182661 | MIDAAS EXPORTS PRIVATE LIMITED                            |
| 11      | U52100WB2013PTC191998 | MINORMAR IMPEX PRIVATE LIMITED                            |
| 12      | U55109WB2011PTC162924 | AKQUASUN HOLIDAYS (KOLKATA) PRIVATE LIMITED               |
| 13      | U31402WB2006PTC110246 | SARK BATTERY PRIVATE LIMITED                              |
| 14      | U51109WB2005PTC105723 | NAVRANG VYAPAAR PRIVATE LIMITED                           |

| Sl. No. | CIN                   | Name of the Company                               |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 15      | U51219WB1986PTC039989 | BINOD FINANCIERS AND COMMERCIALS PVT LTD          |
| 16      | U74994WB2011PTC162073 | ANIKET PRINTS PRIVATE LIMITED                     |
| 17      | U51909WB2009PTC131828 | APNA UTSAV COMMERCIAL PRIVATE LIMITED             |
| 18      | U74900WB2013PTC196138 | NEXTEL SUPPLIERS PRIVATE LIMITED                  |
| 19      | U51101WB2013PTC196130 | MINDSCALE TRADERS PRIVATE LIMITED                 |
| 20      | U74900WB2013PTC196074 | BLESSORS TEXTILE PRIVATE LIMITED                  |
| 21      | U51109WB2005PTC105679 | PENGUINE MERCHANTS PRIVATE LIMITED                |
| 22      | U45400WB2013PTC190672 | REVATI INFRACON PRIVATE LIMITED                   |
| 23      | U11202WB2012PTC175762 | FINSHORE GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED             |
| 24      | U93000WB2013PTC199083 | REVATI MULTI-SERVICES PRIVATE LIMITED             |
| 25      | U70109WB2011PTC164244 | DEBANGAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED               |
| 26      | U70109WB2012PTC184865 | RAMJANKI ESTATES PRIVATE LIMITED                  |
| 27      | U74900WB2013PTC189684 | ACCER INSURANCE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 28      | U72200WB2011PTC167179 | CLARUS SOL SOFTWARE PRIVATE LIMITED               |
| 29      | U27320WB1968PTC027320 | PANAGARH ENGG. WORKS PVT LTD                      |
| 30      | U31402WB1980PTC033107 | EASTERN PIGMENTS PVT LTD                          |
| 31      | U74900WB2013PTC196740 | FUNIN ACTIVITY CENTRES PRIVATE LIMITED            |
| 32      | U74900WB2011PTC158240 | GOLDEN CHAHIDA MARKETING PRIVATE LIMITED          |

D. N. CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
West Bengal

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,  
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

[www.dop.nic.in](http://www.dop.nic.in)